



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 3—जनवरी 9, 2010, शनिवार/पौष 13—पौष 19, 1931  
No. 1] NEW DELHI, JANUARY 3—JANUARY 9, 2010, SATURDAY/PAUSA 13—PAUSA 19, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

का.नि.आ. 1.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम(4) के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

कैंटीन भंडार विभाग,  
“अडेलफी,”

119, महर्षि कर्वे मार्ग, चर्च गेट, मुंबई-400020

[सं. 1 (1)/2007-रक्षा (रा.भा. 1)]

उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th December, 2009

S.R.O. 1.—In pursuance of sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Canteen Stores Department, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Canteen Stores Department  
'ADELPHI'  
119, Maharshi Karve Road,  
Mumbai-400020

[No. 1(1)/2007-D(O.L.-1)]

UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy.

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2009

का.नि.आ. 2.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, तारीख 26 फरवरी,—4 मार्च, 2006 में प्रकाशित भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 33, तारीख 14 फरवरी, 2006 में पृष्ठ 159 की पंक्ति 4 में “2005” के स्थान पर “2006” पढ़ें।

[फा. सं. 12565/ओ.एस./डीजीएनसीसी/का(सी)/752/आरआर/डी(ए)]

एस. एस. एस., सर्मा, अवर सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 2009

S.R.O. 2.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, number S.R.O 33 dated the 14th February, 2006, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 26th February—4th March 2006, at page 159, in line 5, for “2005” read “2006”.

[F. No. 12565/OS/DGNCC/Pers(C)/752/RR/D(Appts)]

S. S. S., SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2009

का.नि.आ. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय (सेना) के समेकित मुख्यालय में सामान्य कर्मचारिवृंद शाखा (जी.एस./एस.डी.) के अधीन विरचना मुख्यालय में समूह ‘ग’ पदों (अनौद्योगिक) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (सेना) के समेकित मुख्यालय में सामान्य कर्मचारिवृंद शाखा (जी.एस./एस.डी.) के अधीन विरचना मुख्यालय, प्रूफ शोधक, कलाकार और नक्शानवीस भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. प्रूफ शोधक	2*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय। ग्रेड वेतन	वेतन बैंड 5200-20200 रु. धन 2400 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) (i) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) (ii) ऐसे पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ii) किसी प्रतिष्ठित मुद्रणालय से अंग्रेजी और हिंदी में प्रूफ जांच में छह माह का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा

(12)

स्थानान्तरण द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने 1900 रु. ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु. वेतन बैंड में आठ वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण किया हो; और

(ख) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता ।

- (1) कर्नल रैंक का एक अधिकारी —अध्यक्ष  
(2) अवर सचिव, भारत सरकार —स्वतंत्र सदस्य  
(3) कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. कलाकार	2*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड 5200-20200 रु. धन 2400 रु. ग्रेड वेतन ।	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) (i) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

(ii) ऐसे पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

(9)

(10)

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से एक विषय के रूप में ड्राईंग के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।  
(ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से वाणिज्यिक या ललित कलाओं में प्रमाणपत्र।  
(iii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या प्रतिष्ठित फर्म में विज्ञापन अभिकरण या वाणिज्यिक कला स्टूडियों में एक वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से ऐसे अधिकारी—

(क) (i) ऐसे कलाकार, जो नियमित आधार पर सदृश वेतनमान में हैं; या

(ii) ऐसे कलाकार जिनमें 1900 रु. ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु. वेतन बैंड में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- (1) कर्नल रैंक का एक अधिकारी  
(2) कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का प्रशासनिक अधिकारी  
(3) अवर सचिव, भारत सरकार

—अध्यक्ष

—सदस्य

—स्वतंत्र सदस्य

लागू नहीं होता।

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3. नक्शानवीस 3\*(2009) साधारण वेतन बैंड अचयन लागू नहीं होता 18 से 27 वर्ष के बीच।  
\*(कार्यभार के केंद्रीय सेवा, 5200-  
आधार पर समूह 'ग', 20200 रु.  
परिवर्तन किया अराजपत्रित, धन 2400 रु.  
जा सकता है।) अननुसचिवीय। ग्रेड वेतन  
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

47314I/A-2



(7)

(1) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(2) ऐसे पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीसी में डिप्लोमा (दो वर्षीय) या समतुल्य ।		
(iii) किसी प्रतिष्ठित फर्म या सरकारी संस्थान से नक्शानवीसी का तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।		
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से ऐसे अधिकारी— (क) (i) ऐसे नक्शानवीस, जो नियमित आधार पर सदृश वेतनमान में हैं; या (ii) ऐसे कलाकार जिन्होंने 1900 रु. ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु. वेतन बैंड में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो ।	
(13)	(14)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) कर्नल रैंक का एक अधिकारी (2) कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का प्रशासनिक अधिकारी (3) अवर सचिव, भारत सरकार	लागू नहीं होता ।  —अध्यक्ष —सदस्य —स्वतंत्र सदस्य	

[सं. सी./65077/जी.एस./एस.डी.-7(एडम.सिक्क.)/आरआर/09/499/75(ए)]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2009.

**S.R.O. 3.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts (Non-Industrial) in the Formation Headquarters under General Staff Branch (GS/SD) of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) in the Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—These rules may be called the Formation Headquarters under General Staff Branch (GS/SD) of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) Proof Reader (PR), Artist and Draughtsman Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, their classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Proof Reader	*02 (2009) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. (1) : The crucial date for determining age limit for direct recruits shall in each

(7)

case be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul, Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(2) In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or Institution with English and Hindi as subjects (ii) Six months experience in checking proofs in English and Hindi from a reputed printing press	Not applicable	Two years for direct recruits
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or transfer to be made	
(11)	(12)	
By transfer failing which direct recruitment	<b>Transfer :</b> Officers from Central Government Offices :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis (ii) holding posts in Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 1900 with eight years regular service or (b) possessing the qualification laid down for direct recruits under column 8	



If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted for making recruitment

(13)	(14)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:—</b>	Not applicable.
(i) An Officer of the rank of Colonel —Chairman	
(ii) Under Secretary to Government of India or equivalent —Independent Member	
(iii) Admn. Officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Artist	02 *(2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400	Non selection	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (1) : The crucial date for determining age limit for direct recruits shall in each case be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul, Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). (2) In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent qualification with drawings as one of the subjects from a recognized University or Board;	Not applicable	Two years for direct recruits

473197A-3

(8)

(ii) Certificate in Commercial or Fine Arts from a Government recognized Institution;

(iii) One year experience in advertising agency or Commercial Art Studio from a Government recognized institution or reputed firm.

(11)

By direct recruitment failing which by Deputation

(12)

Deputation :

Officers from Central Government Offices :—

(a) (i) Artists holding analogous pay scales on regular basis; or

(ii) Artists in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 1900 with eight years regular service or

(b) possessing the qualification laid down for direct recruits under column 8

(13)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**

(i) An Officer of the rank of Colonel;

—Chairman

(ii) Admn. Officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major;

—Member

(iii) Under Secretary to Government of India or equivalent.

—Independent Member

Not applicable.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3. Draughtsman	03 *(2009) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable to Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
----------------	--	--	---	---------------	----------------	---

(1) : The crucial date for determining age limit for direct recruits shall in each case be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul,

(7)		
Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba of Haimachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		
(2) In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit names.		
(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent from a recognized Board or Institution;	Not applicable	Two years for direct recruits
(ii) Diploma in Draughtsmanship (two years course) or its equivalent from a recognized Institute or Industrial Training Institute;		
(iii) Three years practical experience in Draughtsmanship from a reputed firm or Government institution.		
(11)	(12)	
By direct recruitment failing which by deputation	Deputation : Officers from Central Government Offices :— (a) (i) Draughtsman holding analogous pay scales on regular basis; or (ii) Draughtsman in the Pay Band of Rs. 5200---20200 with Grade Pay Rs. 1900 with eight years regular service or (b) Possessing the qualification laid down for direct recruits under column 8.	
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—	Not applicable.	
(i) An Officer of the rank of Colonel	—Chairman	
(ii) Admn. Officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major	—Member	
(iii) Under Secretary to Government of India or equivalent	—Independent Member	
[No. C/60577/GS/SD-7(Adm.Civ.)/RR/09/499/D(Apptts.)]		
S. S. S. SARMA, Under Secy.		

